

### संपादकीय

## राजग में असंतोष

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन (राजग) से जुड़े दलों में एक के बाद एक असंतोष स्पष्ट उभरकर सामने आ रहा है। राजग मोर्चे से जुड़े दल किसी न किसी मुद्दे पर छिटकते से नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा नीत राजग सरकार के नीतिगत फैसले इस सबके लिए जिम्मेदार हैं या नाराजगी जाहिर करने वाले इन दलों की अपनी सोच या राजनीतिक हित दोस्ती में आई आ रही है? भाजपा ने अपने दम पर इस बार 2014 के मुकाबले अधिक सीटों पर कब्जा किया और यह आंकड़ा बढ़कर 303 तक पहुंच गया। गठबंधन में शामिल 10 दलों में से मात्र दो दल जनता दल (यूनैटेड) और शिव सेना ही चुनाव नतीजों में दहाई का आंकड़ा छू पाने में सफल रहे। ऐसी स्थितियों के बाद अचानक इस तरह की परिस्थितियों का उभरना वास्तव में आश्चर्यचकित करता है। गत वर्ष नवंबर में कट्टर हिंदुवादी पार्टी समझी जाने वाली शिव सेना ने भाजपा से अपना पल्ला झाड़ लिया। चूंकि राजनीति में कुर्सी जितनी अहम होती है, संबंध उतने अप्रासंगिक हो जाते हैं। अगर ऐसा न होता तो एक-दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाले तीनों दल शिव सेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक-दूसरे के सुर में सुर न मिलाते। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पास करवाने के बाद विपक्षी दलों का हंगामा करना और कॉलेज छात्रों का आंदोलन समझ में आता है, लेकिन विरोध में जब कुछ आवाजें अपने घर से भी आनी शुरू हो जायें तो मामला चिंतनीय हो ही जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर, लंबे समय से एनडीए का हिस्सा रहे, शिरोमणि अकाली दल ने भी आखिरी तरेनी शुरू कर दी है। अकाली दल ने 8 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने से इनकार कर दिया। अकाली नेताओं द्वारा साथ चुनाव लड़ने की असहमति के कुछ घंटों बाद ही भाजपा ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। हरियाणा में भी कमोबेश हालात ऐसे ही रहे, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी गठबंधन जारी रखे जाने पर आशंकाओं के बादल पहले ही मंडरा रहे हैं। पंजाब में इन दोनों दलों ने मिलकर दस साल तक सरकार चलायी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गठबंधन दृष्टिकोण में लोचशीलता के साथ चलते हैं, किसी एक कोण पर अड़े रहने से बातें हमेशा बतंगड़ बन जाती हैं। केंद्र सरकार अपनी नीति और योजनाओं को लागू करवाने में सख्त रवैया रखती है, लेकिन अपने संगी-साथियों को तो समझाया-बुझाया ही जाना चाहिए। इस मुद्दे दिल्ली के बाद बिहार में भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा और जद-यू में मनोवैज्ञानिक रसाकशी का अहसास इन दलों के बड़े नेताओं के बयान गाहे-बगाहे करवाते रहते हैं। सीट बंटवारे के मसले पर नीतीश कुमार खासी सौदेबाजी के मूड में रहेंगे, ऐसी संभावना है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की भी ऐसी छवि बनी है कि वह प्रादेशिक पार्टियों से भागीदारी कर लक्ष्य तक पहुंच जाती है और फिर उस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करती है। ऐसे परिदृश्य में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में चल रहा बीजू जनता दल ही एकमात्र ठोस अपवाद है।

# एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां मंगाई है। इसको लेकर प्रारंभिक जानकारी भी साझा कर दी गई है। बोलियां लगाने की आखिरी तारीख 17 मार्च है। सरकार ने सर्विसिडियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरपोर्ट सर्विस कंपनी एआईएसपीएस को भी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इसके साथ ही सरकार एयर इंडिया एक्सप्रेस से भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रही है। वहीं



सर्विसिडियरी कंपनी एयरपोर्ट सर्विस कंपनी में अपना 50 फीसद हिस्सा बेचने के लिए 'बोलियां' आमंत्रित की है। इससे पहले एक्सप्रेसेशन ऑफ इंटररेस्ट के ड्राफ्ट को जीओएम की बैठक में मंजूरी दी गई थी और इस महीने के आखिर तक इसे जारी करने की बात निकलकर सामने आई थी। गौरतरब है कि हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अश्विनी लोहानी ने कहा था कि कंपनी के बंद होने को लेकर अफवाहें प्रतीत हो रही हैं। एयर इंडिया उड़ान भरती रहेगी और परिचालन का विस्तार भी करेगी। यात्री हों या कॉर्पोरेट या एंजेंट, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एयर इंडिया अभी भी देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है। इससे पहले केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जारी है।

### शुरुआती कारोबार में रुपया 18 पैसे गिरकर खुला

मुंबई (आरएनएस)। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे गिरकर 71.51 पर खुला। इसकी प्रमुख वजह डॉलर का महसूस करने हैं, उन्हें शेयर बाजारों का कमजोर रुख के साथ शुरू होना रही। मुद्रा कारोबारियों के अनुसार अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने और चरलू शेयर बाजारों की शुरुआत धीमी रहने का असर रुपये पर पड़ा है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी निवेश के बने रहने से यह गिरावट सीमित दायरे में रही। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार पर डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे टूटकर 71.51 पर चल रहा है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 71.33 पर बंद हुआ था। इस बीच ब्रेंट कच्चा तेल भाव 2.14 प्रतिशत घटकर 59.39 डॉलर प्रति बैरल रहा। आर्थिक आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 659.11 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। सुबह के कारोबार में 10 साल की परिपक्वता अवधि वाले सरकारी बांड पर प्रतिफल 6.56 प्रतिशत रहा।

### सोना वायदा भाव 228 रुपये बढ़ा

नयी दिल्ली (आरएनएस)। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सटोरियों के अपनी बोलियां बढ़ाने से सोमवार को सोना वायदा भाव 228 रुपये तक बढ़कर 40,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी सौदों के लिए सोना वायदा भाव 228 रुपये यानी 0.57 प्रतिशत बढ़कर 40,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके लिए 1,673 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह अप्रैल डिलीवरी के लिए यह भाव 241 रुपये यानी 0.6 प्रतिशत बढ़कर 40,715 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इसके लिए 515 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना भाव 0.53 प्रतिशत बढ़कर 1,586.50 डॉलर प्रति औंस रहा।

### 100 वां रणजी मैच में एक और रिकार्ड बनाया पार्थिव को जीसीए ने दी बधाई

अहमदाबाद। गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए)ने क्रिकेटर पार्थिव पटेल के एक और कीर्तिमान बनाते हुए आज गुजरात की ओर से 100 रणजी मैच खेलने वाले गुजरात के पहले खिलाड़ी बनने पर उन्हें बधाई दी है। 2004 में रणजी ट्राफी का पहला मैच खेलने वाले पार्थिव, 2006 से लगातार गुजरात रणजी टीम के कप्तान हैं और आज जब सूरत के लालभाई कौटिकर स्टेडियम में वह विकेट के खिलाफ अपनी टीम के साथ उतरे तो वह 100 रणजी मैच खेलने वाले गुजरात के पहले खिलाड़ी बन गये। जीसीए के मीडिया मैनेजर मनीष शाह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पार्थिव के नाम पहले से ही कई रिकार्ड हैं। गुजरात में क्रिकेट को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। नौ मार्च 1985 को जन्मे पार्थिव ने वर्ष 2002 में जब टीम इंडिया में पहली बार जगह बनायी तो वह विश्व में सबसे कम उम्र के विकेटकीपर बनने के साथ ही भारतीय टीम में जगह पाने वाले गुजरात के पहले खिलाड़ी भी बन गये।




### लंबे समय तक थकान की सुध नहीं ली तो हो सकते हैं बर्नआउट के शिकार

जो लोग हर समय खुद को थका हुआ, निराशा और उलझन से भरा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वे बर्नआउट का शिकार हो चुके हैं। यह एक तरह का सिंड्रोम है और इसका संबंध हार्ट रिस से भी होता है। यह बात हाल ही एक स्टडी में सामने आई है। ऐसे लोग हर समय एनर्जी की कमी महसूस करते हैं... बर्नआउट की वजह वाइफल एगॉजेशन, जिसे आमतौर पर बर्नआउट सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। यह लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने के कारण होता है। जो लोग वर्क प्लेस और घर में किसी ना किसी कारण लंबे समय तक तनाव का सामना करते हैं, उन्हें इस तरह की दिक्कत हो जाती है। डिप्रेशन से अलग होता है बर्नआउट और डिप्रेशन में अंतर होता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनका मूड हर समय लो रहता है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और ये किसी तरह के गिल्ट से भरे होते हैं। जबकि बर्नआउट के शिकार लोगों में चिड़चिड़ापन और थकान अधिक देखने को मिलती है। ऐसे बनती है स्थिति रिसर्च में यह बात भी सामने

आई कि बर्नआउट की यह स्थिति ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलती है, जो एगॉजेशन का लंबे समय तक शिकार रहते हैं। यह कहना है यूएस की साउथर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा की गई इस रिसर्च के ऑर्थर परवीन के गर्ल का। दिल् की धड़कनों पर असर स्टडी में साफ हुआ है कि बहुत अधिक थकान, शरीर में सूजन और सायकोलॉजिकल तनाव का बढ़ना एक दूसरे से लिंक है। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो हार्ट टिश्यूज को डैमेज करने के का काम करती है।

### बास्केटबॉल लेजंड और एनबीए स्टार रहे कोबी ब्रायंट की हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत

नैशनल असोसिएशन ऑफ बस्केटबॉल (एनबीए) के दिग्गज खिलाड़ी कोबी ब्रायंट और उनकी 13 वर्षीय बेटी सहित नौ लोगों की रिवार को यहां हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ अलेक्स विलेनिवा ने बताया कि इस दुर्घटना में आठ यात्रियों और एयरक्रॉफ्ट के पायलट की मौत हो गई। उन्होंने कहा, 'कोई भी नहीं बचा। एयरक्रॉफ्ट में पायलट सहित 9 लोग थे।' हेलिकॉप्टर लॉस एंजलिस के उपनगर कैलाबासास में धुंध वाले मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन दल को सुबह नौ बजकर 47 मिनट पर दुर्घटना की सूचना मिली। लॉस एंजलिस टाइम्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि अधिक धुंध होने के कारण पुलिस के हेलिकॉप्टर दोपहर बाद तक उड़ान नहीं भर सके थे।



### 25 साल बाद फिर इस गाने से सबका दिल चुराने आ रही हैं शिल्पा शेटी

बॉलिवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेटी भले ही 13 साल से फिल्मी दुनिया से दूर हों लेकिन वह अपना कर्मांक फिरोज धमाकेदार अंदाज में चाहती हैं। यही वजह है कि फिल्मी पर्व पर लौटने के लिए शिल्पा ने अपने करियर का सबसे धमाकेदार गाना चुरा के दिल मेरा... को चुना है। निर्देशक प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म हंगामा-2 में इस गाने पर अपनी अदाओं से एक बार फिर हंगामा बरपाती नजर आएंगी शिल्पा शेटी। वैसे भी इस फिल्म के 25 साल हो जाने के बावजूद इस गाने के जरिए आज भी शिल्पा शेटी सबका दिल चुरा लेती हैं। 1994 में आई फिल्म में खिलाड़ी, तू अनाड़ी का यह गाना उस साल के सुपरहिट गानों में शुमार था। यह गाना ऐसा है कि सुनते ही हर शख्स झूम उठे। शिल्पा के डांस ने इस गाने को चार चांद लगा दिया था। अब शिल्पा एक



बार फिर तैयार हैं। हालांकि इस बार गाने में तंग करने के लिए उनके पास अक्षय कुमार नहीं होंगे। बता दें कि मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी में शिल्पा के साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान थे। अब हंगामा-2 फिल्म में इस गाने को रीक्रिएट किया जाएगा। प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रीक्रिएट हो रहे इस गाने को भी शिल्पा शेटी पर ही फिल्माया जाएगा। शिल्पा इस फिल्म में मुख्य किरोदार में हैं। इस फिल्म में उनके साथ मिजान जाफरी और पेश रावल हैं। बता दें कि हाल ही में एक कार्यक्रम में कुमार सानू ने जब शिल्पा से पूछा कि 90 के दशक में उनकी फिल्मों के वे कौन से गाने हैं, जिसे वह दोबारा बनाना चाहेंगी, शिल्पा का जवाब था- कुछ ना कहो और चुरा के दिल मेरा...! अब उनकी यह ख्वाहिश पूरी होने जा रही है।

### बॉलीवुड में धमाल मचाने वाली है राजकुमार राव की अगली फिल्म

#### » पहला पोस्टर हुआ जारी लॉन्च

#### बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की आने वाली फिल्म छलांग का पहला पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है।

बॉलीवुड फिल्मकार हंसल मेहता की फिल्म छलांग का पहला पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। इस फिल्म में नुसरत भरुचा और मोहम्मद जोशान अयूब भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। छलांग एक पीटी टीचर की प्रेरणादायी यात्रा है। इसमें राजकुमार राव पीटी मास्टर बने हैं। फिल्म के पोस्टर में राजकुमार राव तकिये के रूप में फुटबॉल का उपयोग करके लाल ट्रैक सूट में सोते हुए दिख रहे हैं। वह कई



बच्चों से घिरे हुए हैं। सभी स्कूली छात्र लग रहे हैं। वहीं नुसरत उन्हें घूर रही हैं। पोस्टर शेयर करते हुए एक खूबसूरत कैप्शन भी दिया गया है। कैप्शन में लिखा है, लंबी छलांग के लिए, लंबी नॉद जरूरी है। इस फिल्म के माध्यम से हंसल मेहता कहीं न कहीं स्कूल पाठ्यक्रम में खेल शिक्षा को जरूरी बनाने की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। पोस्टर में भी इसका प्रयास साफ दिख रहा है। 'छलांग' 13 मार्च को रिलीज होगी।

### 'भिंडी पीनट मसाला' रेसिपी

**सामग्री:-** 10-12 मिनट में भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी। अब एक दूसरे पैर में मूंगफली, तिल और खसखस डालकर इन्हें हल्की आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें। इसे मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालते हुए अच्छे से पीस लें। अब पैर में फिर से तेल डालें। इसमें सरसों, सौंफ और कलौंजी डालकर तड़काएं। इसके बाद इसमें अदर-पते, 2 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच पेपरिका, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, पानी आवश्यकतानुसार, 3 चम्मच इमली पेस्ट **विधि :-** भिंडी को धोकर कपड़े से पोंछकर सूखा लें और इसे लंबाई में दो-दो बराबर हिस्सों में काट लें। अब एक पैर में तेल गरम करें और धीमी आंच पर भिंडी को फ्राई कर लें। लहसुन पीसा हुआ डालेंगे। इसके बाद प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर उसे सॉफ्ट होने तक पकाएं। अब इसमें मूंगफली और पॉपी सीड्स वाला पेस्ट डाल देंगे। इसके बाद धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। पानी डालते हुए सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें इमली मिलाएं और 4-5 मिनट तक मीडियम हीट पर और पका लें। सबसे बाद में भिंडी मिक्स कर और गरमा-गरम रोटी या चावल के साथ परोसें।



### शब्द सामर्थ्य - 16

**बाएं से दाएं**  
 1. घुमाव-फिराव वाला, आड़ा-तिरछा, जो कठिन हो 3. कुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता 6. लोग, प्रजा 7. सीता, जनकनंदनी 9. सुंदर, कामना करने योग्य 10. क्रोधपूर्वक बोलने को उद्यत होना, जोश में आना, क्रोधातिरेक में चेहरे का लाल होना 13. अधीनता, मातहतता, वश 14. दबाव, भार, वजन 16. हद, मर्यादा 18. प्रमाण-पत्र, प्रमाणिक कथन या बात 19. पछताना (मुहा.) 21. अनुचित मिश्रण, मिलावट 22. विफल, बेहोश, ऊपर से नीचे 1. सहारा, आश्रय, प्रतिज्ञा, संकल्प 2. परिश्रम 4. रात, रात्रि, निशा 5. पुत्र, बेटा 8. मूल्य, दाम 9. कपड़े का मोटा परदा 11. संदेश भेजना, उच्चारण कराना, कहलवाना 12. मृतकों को जीवित और रोगियों को स्वस्थ कर देने वाला व्यक्ति, प्रेमपात्र की संज्ञा 14. देने की क्रिया, खेरात 5. कुमार्गी, दुखचारी 17. मस्तक, माथा, सहायता 18. प्रश्न, समस्या 20. सहायता, सहारा 21. पशुओं को खिलाने वाली हरी पत्तियां, तृण, तिनका।

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |    |    |    |

**शब्द सामर्थ्य क्रमांक 15 का हल**

|   |     |    |    |    |     |    |      |
|---|-----|----|----|----|-----|----|------|
| ज | द   | जे | ह  | द  | स   | पू | त    |
| ल | ब   | ल  | वा | न  |     |    | द    |
| म | ह   | क  | खा | म  | खां |    | बी   |
| र | न   | त  | ल  | ना | स   | फ  | र    |
|   | म   | रा |    |    | ना  | टा |      |
|   | हि  | स  |    |    | फ   | न  |      |
|   | ला  | ज  | वा | ब  | म   | ट  | र    |
|   | मां | ग  | सं | त  | ति  | भ  |      |
|   | मा  | त  | ह  | त  |     | प  | क्षी |

### सू-दोक् - 16

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 |   | 6 |   | 1 |   |   |   |
| 3 |   | 4 |   |   | 2 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
| 6 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |
|   | 9 |   | 5 |   | 6 |   | 1 |   |
| 4 |   | 3 |   |   | 9 |   | 2 |   |
|   | 8 |   | 2 |   |   |   | 7 |   |
| 1 |   | 2 |   | 4 |   | 9 |   | 6 |

**नियम**  
 1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9वर्गों का एक खंड बपता है।  
 2. हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक रखा सकते हैं।  
 3. बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

**सू-दोक् क्र.15 का हल**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 |

### आज का राशिफल

**मेष:** आज आपको शासन द्वारा सम्मानित किए जाने की संभावना रहेगी। यदि आप किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था से कर्ज लेना चाहें तो कदापि न लें।  
**वृषभ:** आज का दिन आप बहुत व्यस्त रहेंगे। ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरतें, पांव में चोट लगने का भय है।  
**मिथुन:** आज आप फिजूल के खर्च से बचें। यदि आप किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं तो आज कष्ट की वृद्धि हो सकती है।  
**कर्क:** भाग्य की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा। आपके परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा।  
**सिंह:** आज का दिन मिश्रित फलकारक है। मानसिक अशांति, खिन्नता एवं उदारीनता के कारण आप भटक सकते हैं।  
**कन्या:** आज आपमें निर्भीकता का भाव रहेगा तथा साहसपूर्वक अपने कठिन कार्यों को संपन्न करने में सक्षम रहेंगे।  
**तुला:** आज का दिन आपके लिए शुभकारक है। आपके अधिकार व सम्पत्ति में वृद्धि होगी।  
**वृश्चिक:** आज आपका मन अशांत एवं परेशान रहेगा। व्यापार वृद्धि के लिए किए गए प्रयास निष्फल हो सकते हैं।  
**धनु:** आज आपकी विद्या, ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके अंदर दान-पुण्य एवं परोपकार की भावना विकसित होगी।  
**मकर:** आज आपको बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति के साथ साथ ऐसे अनावश्यक खर्च भी सामने आएंगे, जो कि न चाहते हुए भी मजबूरी में करने पड़ेंगे।  
**कुम्भ:** आज का दिन बुद्धि विवेक से नई खोज करने में व्यतीत होगा। आप सीमित एवं आवश्यकतानुसार ही व्यय करें।  
**मीन:** आज संतान से संबंधित किसी विवाद का हल निकल आएगा। खुशमिजाज व्यक्ति त्व होने के कारण अन्य व्यक्ति आपसे संबंध बनाने की चेष्टा करेंगे।